

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2(सेना-क्षेत्र) पठानकोट।

ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु गृह-कार्य(10-05-2019 से 18-06-2019 तक)

विषय:हिंदी।

कक्षा: नवीं-अ और ब

विशेष निर्देश: प्रत्येक विद्यार्थी ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु गृह कार्य करने के लिए 20 से 30 पृष्ठ की पुस्तिका हिंदी विषय के लिए लगाएंगे। कोई भी विद्यार्थी लेखन पुस्तिका अर्थात् नोटबुक (जो रेगुलर चल रही है) में ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु दिया गया गृह कार्य नहीं करेगा ।

1. 'दो बैलों की कथा' में अपने पसंदीदा पात्र के विषय में एक पृष्ठ चित्र (कल्पना से उस पात्र का चित्र)सहित लिखना ।
2. 'दो बैलों की कथा' के अभ्यास के प्रश्न-उत्तर जो लेखन पुस्तिका में करवाए गए हैं याद करने तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह कार्य पुस्तिका में भी लिखने।
3. संत कवि कबीरदास जी की 'साखियों' और 'सबद' में से किन्हीं दो-दो की सप्रसंग व्याख्या लिखनी।
4. 'इस जल प्रलय में' नामक जीवन-वृत्तांत को संक्षिप्त रूप से 150 से 200 शब्दों में लिखना।
5. उपसर्ग तथा प्रत्यय के 10-10 उदाहरण लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग करना।
6. पत्र लेखन विधा में अपने मित्र को ग्रीष्मकालीन अवकाश में बिताए गए समय तथा क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए एक पत्र लिखना।
7. परियोजना कार्य:

क)ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय अपनाई गई समय सारणी को एक चार्ट पर रंग बिरंगे तरीके से दर्शाना तथा उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए अभिभावक के हस्ताक्षर का होना अनिवार्य है ।

समय सारणी के मुख्य बिंदु :प्रातः कालीन सैर, योग, व्यायाम, खेल, अध्ययन, संतुलित भोजन, भ्रमण, साइकिल चलाना, संगीत, गायन आदि क्रियाकलापों को सम्मिलित कर सकते हैं।

अथवा

किसी भी हिंदी दैनिक समाचार के संपादकीय पेज (अवकाश के किन्हीं 10 दिनों का) को पढ़कर उसके संक्षिप्त विवरण को एक पृष्ठ पर लिखना तथा उससे संबंधित चित्र भी बनाना।

विषयाध्यापक-अनिल कुमार (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी)

